

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10012020-215315
CG-DL-E-10012020-215315

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 113]
No. 113]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 9, 2020/पौष 19, 1941
NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 9, 2020/PAUSHA 19, 1941

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

(राजस्व आसूचना निदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 जनवरी, 2020

सं. 3/2020-सीमा शुल्क (गै.टै./सीएए/राजानि)

का.आ.123(अ).—भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग द्वारा सीमाशुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के अनुच्छेद (ए) के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. 60/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.) संख्या सा.का.नि. 453(अ), दिनांक 04 जून 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित एवं यथा-अधिसूचना सं. 133/2015-सीमाशुल्क (गै.टै.), संख्या सा.का.नि. 916(अ), दिनांक 30 नवम्बर 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित के द्वारा संशोधित, के अनुसरण में महानिदेशक, राजस्व आसूचना निम्नलिखित तालिका के स्तंभ (3) में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसों के न्यायनिर्णयन के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (2) में उल्लेखित नोटिसियों के संबंध में उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (4) में उल्लेखित अधिकारियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग व कर्तव्यों के निर्वहन हेतु एतद द्वारा उपर्युक्त तालिका के स्तंभ (5) में उल्लेखित अधिकारियों को समान न्यायनिर्णयन प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं

तालिका

क्र.सं.	नोटिसियों का नाम एवं पता	कारण बताओ नोटिस संख्या एवं दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकारियों के नाम	नियुक्त न्यायनिर्णयन प्राधिकारी
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	मै जमीपोल लिमिटेड, नमडीह रोड, एनएमएल के सामने, बर्मासाइनस, जमशेदपुर, झारखंड-831007 और मै जमीपोल लि., जेएसडबल्यू आन्सीलारी इंडस्ट्रियल इस्टेट, टोरनागल्लू-583123.	क्रा.सं . DRI/BZU/ S- IV/ Enq-68 (Int- Nil)/2018 दिनांक 08.11.2019 (SCN No. 56/2019- DRI (BZU))	प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस, कोलकाता. आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-II), सी पोर्ट आयुक्तालय, कस्टम हाउस, चेन्नई.	प्रधान आयुक्त/ आयुक्त सीमाशुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस, कोलकाता.
2.	मै रिलायंस कम्युनिकेशनस लि.,रिलायंस कम्युनिकेशनस के श्री अनीश नानावती रेसोल्यूशन प्रॉफेशन, डलॉइट तौच तोहमतसू इंडिया एलएलपी, इंडिया बुल्स फ्राइनेस सेंटर, टावर 3, 27 ^{वा} फ्लोर, सेनापति बापत मार्ग, एल्फिनस्टोन रोड (वेस्ट), मुंबई-400013 के जरिये	क्रा.सं . DRI/MZU/ E/ Int-164/2018 दिनांक 23.10.2019.	अपर आयुक्त सीमाशुल्क (ग्रुप 5A), चेन्नई-VII (एयर कार्गो), कस्टम हाउस, मीनाम्बक्कम, चेन्नई. अपर आयुक्त सीमाशुल्क (ग्रुप 7H), चेन्नई-VII (एयर कार्गो), न्यू कस्टम हाउस, मीनाम्बक्कम, चेन्नई. संयुक्त आयुक्त सीमाशुल्क (ग्रुप 5A), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आयात), न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली. संयुक्त आयुक्त सीमाशुल्क (ग्रुप 7H), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आयात), न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली. प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (III), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आयात), सहर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई. प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (III), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (निर्यात), सहर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.

			संयुक्त आयुक्त सीमाशुल्क (एयर पोर्ट एवं प्रशासन), कस्टम हाउस, कोलकाता. आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई. आयुक्त सीमाशुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस, कोलकाता. आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगलकाबाद, नई दिल्ली.	
3.	मै टोरेंट फार्मासुटीकलस लिमिटेड, टोरेंट हाउस, दिनेश हाल के निकट, ऑफ आश्रम रोड, अहमदाबाद-380009 और 11 अन्य.	फ़ा.सं . DRI/AZU/ SRU-4/2018-SFIS (Torrent) दिनांक 30.08.2019*. *(कारण बताओ नोटिस के सीमाशुल्क हिस्से के लिए अधिसूचित)	प्रधान आयुक्तआयुक्त सीमाशुल्क/, कस्टम हाउस, अहमदाबाद. प्रधान आयुक्त आयुक्त/सीमाशुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, सहर, मुंबई. प्रधान आयुक्तआयुक्त सीमाशुल्क/ (आयात), न्हावा शेवा-V, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. सहायकउप आयुक्त सीमाशुल्क/, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आयात), न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.
4.	मै हाइ कॉम कम्प्युटर्स, श्री अब्दुल शरीफ, 121/A, दूसरा तल, माइ चॉइस बिल्डिंग, पार्कलेन, सिकंदराबाद-560003 अपने प्रतिनिधि श्री शेख अब्दुल शरीफ के द्वारा और 3 अन्य.	फ़ा.सं . DRI/BZU/ S- IV/ Enq-31/Int- 08/2017 दिनांक 08.11.2019.	आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई. आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-VII), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, न्यू कस्टम हाउस, मीनाम्बक्कम, चेन्नई.	प्रधान आयुक्तआयुक्त / सीमाशुल्क (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई.
5.	मै स्वाच ग्रुप (इंडिया) प्रा.	फ़ा.सं . DRI/LZU-	प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क,	अपर महानिदेशक

	लि., 4 ^थ तल, रक्टिंगल-1, प्लॉट सं. D4, साकेत डिस्ट्रिक्ट सेंटर, नई दिल्ली-110017.	CI/26/Enq-27 (Int-5)/2017 दिनांक 21.11.2019.	एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (आयात), न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली आयुक्त सीमाशुल्क, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, नेडम्पसेरी, कोचीन कस्टम हाउस, विल्लिंगडन आईलैंड, कोचीन.	(न्याय निर्णयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली.
6.	मै सूजलॉन एनेर्जी लि., श्रीमली सोसाइटी, श्री कृष्ण कॉम्प्लेक्स के निकट, नवरंगपुरा कॉम्प्लेक्स, अहमदाबाद.	फ़ा.सं. . DRI/CRU/ VIII/26/Enq-1/Int-7/2018-CBE दिनांक 27.11.2019.	आयुक्त सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-V), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़. आयुक्त सीमाशुल्क (चेन्नई-II), कस्टम हाउस, चेन्नई.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.
7.	मै केएआर एंटरप्राइसेस, शॉप सं. 3, ओम कोप्रेटीव सोसाइटी, राधानगर, वकोला ब्रिज के निकट, संता कूज, मुंबई और 2 अन्य.	फ़ा.सं. . DRI/HQ-CI/ 50D/Int-2/2018-CI दिनांक 14.11.2019.	प्रधान आयुक्तआयुक्त सीमाशुल्क/, पोर्ट यूसर विल्लिंग, अदानी पोर्ट, मुंदरा, कच्छ. संयुक्तअपर आयुक्त सीमाशुल्क/ (आयात-II), कस्टम हाउस, बललार्ड इस्टेट, मुंबई.	अपर महानिदेशक (न्याय निर्णयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, मुंबई.
8.	मै नेपच्युन एक्सिम, C-102, मिडस एंक्लेव, दादीसेठ अगारी लेन, मालाड (वेस्ट), मुंबई-400064 और 4 अन्य.	फ़ा.सं. . DRI/HQ- CI/50D/Int-23/2018 दिनांक 18.01.2019.	संयुक्तसीमाशुल्क अपर आयुक्त/ (न्हावा शेवा-I), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	प्रधान आयुक्तआयुक्त / सीमाशुल्क (न्हावा शेवा-I), जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.
9.	मै वीओएस टेक्नोलोजीस (इंडिया) प्रा. लि., 44, पहला तल, निशांत कुंज, पीतमपूरा, दिल्ली-110034 और 13 अन्य.	डीआरआई फ़ा.सं. . DRI/ HQ-CI/50D/B- Cell/Int-13/2019-CI दिनांक 29.11.2019.	प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-तुगल्काबाद, नई दिल्ली. प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), इनलैंड कंटेनर डिपो-पटपरगंज, नई दिल्ली. प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली. प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (पोर्ट), कस्टम हाउस, कोलकाता.	अपरमहानिदेशक (न्याय निर्णयनन), राजस्व आसूचना निदेशालय, दिल्ली.

			प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (आयात), न्हावा शेवा-V, जवाहरलाल नेहरू कस्टम हाउस, रायगढ़.	
			प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क, मुँदरा, पोर्ट यूसर बिल्डिंग, अदानी पोर्ट, मुँदरा, कच्छ.	
			प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क, नोएडा सीमाशुल्क आयुक्तालय, कोंकोर कॉम्प्लेक्स, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुध नगर, उत्तर प्रदेश.	
			प्रधान आयुक्त सीमाशुल्क (निवारक), न्यू कस्टम हाउस, नई दिल्ली.	

[फा. सं. DRI/HQ-CI/50D/CAA-50/2019-CI]

जसप्रीत सिंह सुखीजा, संयुक्त निदेशक

MINISTRY OF FINANCE**(Department of Revenue)****(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)****(DIRECTORATE OF REVENUE INTELLIGENCE)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 6th January, 2020

No. 3/2020-Customs (N.T./CAA/DRI)

S.O. 123(E).—In pursuance of notification No. 60/2015-Customs (N.T.), published *vide* number G.S.R. 453(E), dated 4th June 2015 in Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), and as amended by notification No. 133/2015-Customs (N.T.), published *vide* number G.S.R. 916(E) dated 30th November 2015 in Gazette of India, Extra-ordinary, Part-II, section 3, sub-section (i), issued by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, under clause (a) of section 152 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Director General, Revenue Intelligence, hereby appoints officers mentioned in column (5) of the Table below to act as a common adjudicating authority to exercise the powers and discharge the duties conferred or imposed on officers mentioned in column (4) of the said Table in respect of noticees mentioned in column (2) of the said Table for the purpose of adjudication of show cause notices mentioned in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

Sl.	Name of Noticee (s) and	Show Cause Notice	Name of Adjudicating	Common Adjudicating
-----	-------------------------	-------------------	----------------------	---------------------

No.	Address	Number and Date	Authorities	Authority appointed
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	M/s. Jamipol Limited, Namdih Road, Opp. NML, Burmamines, Jamshedpur, Jharkhand-831007 and M/s. Jamipol Ltd., JSW Ancillary Industrial Estate, Toranagallu-583123.	F. No. DRI/BZU/ S-IV/ Enq-68 (Int-Nil)/2018 dated 08.11.2019 (SCN No. 56/2019- DRI (BZU))	Principal Commissioner of Customs (Port), Custom House, Kolkata. Commissioner of Customs (Chennai-II), Seaport Commissionerate, Custom House, Chennai.	Principal Commissioner/ Commissioner of Customs (Port), Custom House, Kolkata.
2.	M/s. Reliance Communications Ltd., Through Sh. Anish Nanavaty Resolution Professional of Reliance Communication, Deloitte Touche Tohmatsu India LLP, India Bulls Finance Centre, Tower 3, 27 th Floor, SenapatiBapatMarg, Elphinstone Road (West), Mumbai-400013	F. No. DRI/MZU/ E/ Int-164/2018 dated 23.10.2019.	Additional Commissioner of Customs (Group 5A), Chennai-VII (Air Cargo), Custom House, Meenambakkam, Chennai. Additional Commissioner of Customs (Group 7H), Chennai-VII (Air Cargo), New Custom House, Meenambakkam, Chennai. Joint Commissioner of Customs (Group 5A), Air Cargo Complex (Import), New Custom House, New Delhi. Joint Commissioner of Customs (Group 7H), Air Cargo Complex (Import), New Custom House, New Delhi. Principal Commissioner of Customs (III), Air Cargo Complex (Import), Sahar, Andheri (East), Mumbai. Principal Commissioner of Customs (III), Air Cargo Complex (Export), Sahar, Andheri (East), Mumbai. Joint Commissioner of Customs (Airport & Admin.), Custom House, Kolkata.	Additional Director General (Adjudication), Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai.

			Commissioner of Customs (Chennai-II), Custom House, Chennai.	
			Commissioner of Customs (Port), Custom House, Kolkata.	
			Commissioner of Customs (Nhava Sheva-V), Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad.	
			Principal Commissioner of Customs (Import), Inland Container Depot- Tughlakabad, New Delhi.	
3.	M/s. Torrent Pharmaceuticals Limited, Torrent House, Near Dinesh Hall, Off Ashram Road, Ahmedabad-380009 and 11 others.	F. No. DRI/AZU/ SRU-4/2018-SFIS (Torrent) dated 30.08.2019*. *(Notified for Customs portion of the Show Cause Notice only)	Principal Commissioner/ Commissioner of Customs, Custom House, Ahmedabad.	Additional Director General (Adjudication), Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai.
			Principal Commissioner/ Commissioner of Customs, Air Cargo Complex, Sahar, Mumbai.	
			Principal Commissioner/ Commissioner of Customs (Import), NhavaSheva-V, Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad.	
			Assistant/Deputy Commissioner of Customs, Air Cargo Complex (Import), New Custom House, New Delhi.	
4.	M/s. Hi Com Computers, Represented by Sh. Abdul Shareef, 121/A, IInd Floor, My Choice Building, Parklane, Secunderabad-560003 Represented by its Proprietor Sh. Sheik Abdul Shareef and 3 others.	F. No. DRI/BZU/ S-IV/Enq-31/Int-08/ 2017 dated 08.11.2019.	Commissioner of Customs (Chennai-II), Custom House, Chennai.	Principal Commissioner/ Commissioner of Customs (Chennai-II), Custom House, Chennai.
			Commissioner of Customs (Chennai-VII), Air Cargo Complex, New Custom House, Meenambakkam, Chennai.	
5.	M/s. Swatch Group (India) Pvt. Ltd., 4 th Floor, Rectangle-1, Plot No. D4, Saket District Centre,	F. No. DRI/LZU- CI/26/Enq-27 (Int-5)/ 2017 dated 21.11.2019.	Principal Commissioner of Customs, Air Cargo Complex (Import), New Custom House, New Delhi	Additional Director General (Adjudication), Directorate of Revenue

	New Delhi-110017.		Commissioner of Customs, Air Cargo Complex, Nedampassery, Cochin Custom House, Willingdon Island, Cochin.	Intelligence, Delhi.
6.	M/s. Suzlon Energy Ltd., Shrimali Society, Near Shri Krishna Complex, Navrangpura Complex, Ahmedabad.	F. No. DRI/CRU/ VIII/26/Enq-1/Int- 7/2018-CBE dated 27.11.2019.	Commissioner of Customs (Nhava Sheva-V), Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad.	Additional Director General (Adjudication), Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai.
			Commissioner of Customs (Chennai-II), Custom House, Chennai.	
7.	M/s. KAR Enterprises, Shop No. 3, Om Cooperative Society, Radhanagar, Near Vakola Bridge, Santa Cruz, Mumbai and 2 others.	F. No. DRI/HQ- CI/50D/Int-2/2018-CI dated 14.11.2019.	Principal Commissioner/ Commissioner of Customs, Port User Building, Adani Port, Mundra, Kutch.	Additional Director General (Adjudication), Directorate of Revenue Intelligence, Mumbai.
			Joint/Additional Commissioner of Customs (Import-II), Custom House, Ballard Estate, Mumbai.	
8.	M/s. Neptune Exim, C-102, Midas Enclave, Dadiseth Agari Lane, Malad (West), Mumbai-400064 and 4 others.	F. No. DRI/HQ- CI/50D/Int-23/2018 dated 18.01.2019.	Joint/Additional Commissioner of Customs (Nhava Sheva-I), Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad.	Principal Commissioner/ Commissioner of Customs (Nhava Sheva-I), Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad.
9.	M/s. VOS Technologies (India) Pvt. Ltd., 44, First Floor, NishantKunj, Pitampura, Delhi-110034 and 13 others.	DRI F. No. DRI/ HQ- CI/50D/B-Cell/Int- 13/2019-CI dated 29.11.2019.	Principal Commissioner of Customs (Import), Inland Container Depot- Tughlakabad, New Delhi.	Additional Director General (Adjudication), Directorate of Revenue Intelligence, Delhi.
			Principal Commissioner of Customs (Import), Inland Container Depot- Patparganj, New Delhi.	
			Principal Commissioner of Customs (Import), Air Cargo Complex, New Custom House, New Delhi.	
			Principal Commissioner of Customs (Port), Custom House, Kolkata.	
			Principal Commissioner of	

			Customs (Import), Nhava Sheva-V, Jawaharlal Nehru Custom House, Raigad. Principal Commissioner of Customs, Mundra, Port User Building, Adani Port, Mundra, Kutch. Principal Commissioner of Customs, Noida Customs Commissionerate, Concor Complex, Greater Noida, Gautam Budh Nagar, Uttar Pradesh. Principal Commissioner of Customs (Preventive), New Custom House, New Delhi.	
--	--	--	---	--

[F. No. DRI/HQ-CI/50D/CAA-50/2019-CI]

JASPREET SINGH SUKHIJA, Jt. Director